



## जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 13 मई, 2022 को वरचुअल रूप से आयोजित **ब्रिक्स** की उच्च स्तरीय बैठक में हस्तिना लीया, जहाँ उन्होंने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, नमिन कार्बन तथा अनुकूलन संक्रमण में तेज़ी लाने वाले दृष्टिकोणों की खोज और सतत तथा विकास करने के लिये फोरम की प्रसंगिकता को रेखांकित किया।

- बैठक की अध्यक्षता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने की थी और इसमें ब्रिक्स देशों- ब्राज़ील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया था।

### बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत ने अपने संबोधन में सावधानीपूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा देने सहित मज़बूत जलवायु कार्रवाई के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिक रिमाण, सतत परिवहन में परिवर्तन, ई-मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएँ पूरण करने के लिये नज़ी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने आदि के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
- भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है।
- विकासशील देशों का जलवायु कार्यों का महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** और **पेरिस समझौते** द्वारा अनिवार्य रूप से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अन्य कार्यान्वयन समर्थन के महत्वाकांक्षी एवं पर्याप्त वितरण पर निर्भर है।
- ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल नरिणय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा **COP 26** परेसीडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रदायगी योजना की दशा में आगे बढ़ने आशा व्यक्त की है।
- ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग की वषिय वस्तुओं को व्यापक एवं गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- इसके अतिरिक्त इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतित आदान-प्रदान तथा सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई।

### BRICS के बारे में:

- ब्रिक्स वशिव की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
  - ब्रिटिश अर्थशास्त्री जमि ओ'नील ने 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द का प्रयोग किया।
  - BRIC वदिश मंत्रियों की वर्ष 2006 में पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
  - दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
- ब्रिक्स दुनिया के **पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है**, यह वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष **B-R-I-C-S** क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
  - भारत 2021 के लिये अध्यक्ष था।
- वर्ष 2014 में फोर्टालेजा (ब्राज़ील) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के दौरान नेताओं ने **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB - शंघाई, चीन)** की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिये ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किये।

### वर्गित वर्ष के प्रश्न:

## नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2016)

1. APEC द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है ।
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) को पहले ब्रक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था ।
- यह ब्रक्स राज्यों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है । अतः कथन 1 सही नहीं है ।
- बैंक का मुख्यालय शंघाई (चीन) में है । अतः कथन 2 सही है ।
- फोर्टालेजा (2014) में छठे ब्रक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रक्स के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक विकास के लिये बहुपक्षीय व क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के पर्याप्तों के पूरक के लिये फोर्टालेजा घोषणा द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की गई थी ।
- इसकी आरंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसकी आरंभिक अभिदान पूंजी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से साझा किया गया था ।

परश्न. हाल ही में चर्चा में रहा 'फोर्टालेजा डक्लिरेशन' किससे संबंधित है? (2015)

- (a) आसियान
- (b) ब्रक्स
- (c) ओईसीडी
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: B

व्याख्या:

- 2014 में छठे ब्रक्स शिखर सम्मेलन में 'फोर्टालेजा डक्लिरेशन' की घोषणा की गई थी । इसके अंतर्गत नमिनलखिति समझौते किये गए थे:
- 100 अरब डॉलर के कोष के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौता; जो ब्रक्स में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सभी ब्रक्स देशों के बीच समान रूप से धन का वितरण करेगा ।
- अल्पकालिक तरलता मांगों से निपटने के लिये 100 बिलियन डॉलर के प्रारंभिक राशिके साथ ब्रक्स आकस्मिक रिज़र्व (CRA) की व्यवस्था की गई है । अतः विकल्प (B) सही है ।

स्रोत: पी.आई.बी.